

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 दिसंबर 2022

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस संगठन ने 'जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022' जारी की है?

- A) ट्राइब्स फाउंडेशन
- B) समता फाउंडेशन
- C) निसर्ग फाउंडेशन
- D) भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन

**सही उत्तर: D**

भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन, ग्रामीण विकास मंत्रालयके तहत स्थापित एक स्वतंत्र समाज, ने हाल ही में अपनी तरह की पहली जनजातीय विकास रिपोर्ट-2022 जारी की है।

### प्रश्न-2

ग्लोबल बैंकिंग समिट में निम्नलिखित में से किस बैंक को भारत खंड के लिए "बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022" मिला?

- A) बैंक ऑफ इंडिया
- B) केनरा बैंक
- C) पंजाब नेशनल बैंक
- D) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**सही उत्तर: B**

केनरा बैंक ने घोषणा की है कि उसे ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत खंड के लिए "बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022" मिला है, जो 29 नवंबर 2022 से 01 दिसंबर 2022 तक लंदन, UK में आयोजित किया गया था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 दिसंबर 2022

### प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है?

- A) हिमाचल प्रदेश
- B) कर्नाटक
- C) मुंबई
- D) सौराष्ट्र

**सही उत्तर: D**

सौराष्ट्र ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीत हासिल की। महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 248 रन बनाए।

### प्रश्न-4

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या है?

- A) 52
- B) 50
- C) 48
- D) 45

**सही उत्तर: C**

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। रैंक देश द्वारा प्राप्त सर्वोच्च स्थान है। भारत चार साल पहले रैंकिंग में 102वें स्थान पर था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 दिसंबर 2022

### प्रश्न-5

नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट "प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 (जुलाई-सितंबर) 2022" में किस भारतीयशहर ने 22वाँ रैंक हासिल की है?

- A) मुंबई, महाराष्ट्र
- B) जयपुर, राजस्थान
- C) इंदौर, मध्य प्रदेश
- D) बेंगलुरु, कर्नाटक

**सही उत्तर: A**

'प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 (जुलाई-सितंबर) 2022' पर अपनी रिपोर्ट में , संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने कहा कि मुंबई एक वैश्विक सूचकांक में 22वें स्थान पर रहा, जो प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि को मापता है।

### प्रश्न-6

भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ लॉन्च किया गया था?

- A) अहमदाबाद, गुजरात
- B) चेन्नई, तमिलनाडु
- C) हैदराबाद, तेलंगाना
- D) मुंबई, महाराष्ट्र

**सही उत्तर: C**

हैदराबाद स्थित गोल्डसिका प्राइवेट लिमिटेड ने एक गोल्ड ATM स्थापित किया है , जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह देश की पहली रियल-टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन है। इन गोल्ड ATM के माध्यम से, खरीदार किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके तुरंत वास्तविक सोना खरीद सकते हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 दिसंबर 2022

### प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किसने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ( BHAVINI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला?

- A) ए.के. मोहंती
- B) बी. वेंकटरमण
- C) के.वी. सुरेश कुमार
- D) राजनाथ राम

**सही उत्तर: C**

परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक के .वी. सुरेश कुमार ने चेन्नई के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ( BHAVINI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

### प्रश्न-8

'सिंधुजा-I' नामक एक उपकरण जो समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है , निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था?

- A) IIT मद्रास
- B) IIT कानपुर
- C) IIT दिल्ली
- D) IIT बॉम्बे

**सही उत्तर: A**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ( IIT मद्रास) के शोधकर्ताओं ने 'सिंधुजा-I' नामक उपकरण विकसित किया है जो समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। नवंबर 2022के दूसरे सप्ताह के दौरान इस डिवाइस का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 दिसंबर 2022

### प्रश्न-9

बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?

- A) 01 दिसंबर
- B) 02 दिसंबर
- C) 03 दिसंबर
- D) 04 दिसंबर

**सही उत्तर: D**

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में रखने का निर्णय लिया और इसे 2020 में पहली बार मनाया गया। सतत विकास के वित्तपोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए इसे मनाया गया।

### प्रश्न-10

\_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली फास्टैग-सक्षम पार्किंग प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है।

- A) असम
- B) जम्मू और कश्मीर
- C) लद्दाख
- D) मिजोरम

**सही उत्तर: B**

जम्मू और कश्मीर को अपना पहला फास्टैग-सक्षम पार्किंग प्रबंधन सिस्टम मिल गया है। पार्किंग का उद्घाटन आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता ने किया।